

**\*प्रेस नोट\***

**\*दिनांक 19.11.2022\***

**\*थाना रजबपुर पुलिस व आबकारी विभाग टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गैर प्रान्तीय अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर कार बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक अभियुक्त को गैर प्रान्तीय अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार किया गया ।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-** अवगत कराना है कि कल दिनांक 18.11.2022 की रात्रि थाना रजबपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा जोया टोल पर चैकिंग के दौरानस्विफ्ट डिजायर रजि0 न0 HR74 A6849 से अवैध शराब की तस्करी कर रहे अभियुक्त साहिल खान पुत्र सद्दीक खान निवासी रिवासन थाना रोजका मेऊ जनपद मेवात हरियाणा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से गाडी मे छिपाकर रखी हुई 18 बोतल रॉयल स्टेग बैरेल, 24 बोतल रॉयल स्टेग, 05 बोतल रॉयल ग्रीन व 18 केन बीयर बडवाईजर हरियाणा मार्का गैर प्रान्तीय शराब बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रजबपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से धन अर्जन करने के लिए गैर प्रान्तीय अवैध शराब (दिल्ली व हरियाणा) की तस्करी कर यूपी में उंचे दामों में बेच देना बताया गया ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण\*:-**

1. साहिल खान पुत्र सद्दीक खान निवासी रिवासन थाना रोजका मेऊ जनपद मेवात हरियाणा ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर रजि0 न0 HR74 A6849 ।
2. 18 बोतल रॉयल स्टेग बैरेल, 24 बोतल रॉयल स्टेग, 05 बोतल रॉयल ग्रीन ।
3. 18 केन बीयर बडवाईजर ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. आबकारी टीम नौगावां सादात व हसनपुर क्षेत्र ।
2. थाना रजबपुर पुलिस टीम ।

**\*PRO CELL AMROHA\***